



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1180 राँची, सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 दिसम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-137/2016 का.-2948 (HRMS)-- श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, झां०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध गोड्डा/पोडैयाहाट/सुन्दर पहाड़ी में अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्श के चयन कार्य में लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1801, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10783, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्रीमती भुदोलिया से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमती भुदोलिया के पत्र, दिनांक 01 मार्च, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्रीमती भुदोलिया के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3046, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-527/स्था०, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती भुदोलिया के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KANCHAN KUMARI BHUDOLIA  110061209621	श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----